

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रतिष्ठान से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 463] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 17, 1983/आश्विन 25, 1905
No. 463] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 1983/ASVINA 25, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

आदेश सं. 31/83

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1983

का. शा. 743 (अ).—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम
1947 (1947 का 18) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते
हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा खले सामान्य लाइसेंस सं. 1/83 दिनांक 15-4-1983
की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

- (1) भाग-1 में प्रविष्टि 1 में "पोलिएस्तेटिल" शब्द को "पोलिएसीटिल"
पढ़ा जाएगा।

- (2) भाग-1 में वर्तमान प्रविष्टि सं. 82 के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :—

“82क. टिटैनियम स्पंज”

- (3) भाग-3 में प्रविष्टि 15 ग में “पोलिएसीटिल” शब्द को “पोलिएसीटल” पढ़ा जाएगा ।

- (4) भाग-3 में प्रविष्टि 15 ध में “पोलि-टेट्राफ्ल्यूरोइथेन” शब्द को “पोलि-टेट्राफ्ल्यूरो-एथिलीन” पढ़ा जाएगा ।

[मिसिल सं. आई.पी.सी. 13/1/83]

प्र. च. जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE
IMPORT TRADE CONTROL
ORDER NO. 31/83

New Delhi, the 17th October, 1983

S.O. 743(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendments to Schedule to Open General Licence No. 1/83 dated the 15th April, 1983 :—

- (1) In Part I, Entry No. 1, the word “Polyacetyl” shall read “Polyacetal”.
- (2) In Part I, after the existing entry No. 82, the following new entry shall be inserted :—
“82A. Titanium Sponge”.
- (3) In Part III, Entry No. 15C, the word “Polyacetyl” shall read “Polyacetal”.
- (4) In Part III, Entry No. 15D, the word “Poly-tetrafluoroe-thane” shall read “Poly-tetrafluoroethylene”.

[File No. IPC 13/1/83]

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports